



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 80]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2001/माघ 24, 1922

No. 80]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2001/MAGHA 24, 1922

कृषि मंत्रालय

पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2001

का.आ. 122 (अ).— भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से परामर्श के पश्चात् केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कुछ पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करती है तथा इस उद्देश्य से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है ताकि उसमें ये अर्हताएं सम्मिलित की जायें, नामतः

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उप शीर्षक “उपाधि” के अंतर्गत,

(1) कालम 3 में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ से संबंधित क्रम संख्या 53 के सामने दिनांक 16 अप्रैल, 1990 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामतः

“उपरोक्त के अनुसार यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी जबकि उसे 18 नवम्बर, 1996 या उससे पूर्व प्रदान किया गया हो।”

(2) क्रम संख्या 57 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नांकित क्रम संख्याओं एवं प्रविष्टियों को स्थापित किया जाएगा, नामतः

“58. पांडिचेरी
विश्वविद्यालय,
पांडिचेरी

बैचलर ऑफ़ वेटेरिनरी साइंस
एंड एनिमल हजबैंडरी

बी. बी. एस. सी. एंड ए. एच.

उपरोक्त के अनुसार यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी जबकि उसे 25 नवम्बर, 1999 या उसके बाद प्रदान किया गया हो।

| | | |
|---|---|--|
| 59. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ | बैलचर ऑफ़ वेटेरिनरी साइंस एंड एनिमल हजबैंडरी | बी. वी. एस. सी. एंड ए. एच. उपरोक्त के अनुसार यह अर्हता एक मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता होगी जबकि उसे 19 नवम्बर, 1996 या उसके बाद प्रदान किया गया हो।" |
|---|---|--|

[फाइल सं. 51-6/89-एल. डी. टी. (वी. सी.) भाग]

सत्यबीर एस. डोड, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984, अधिनियम (सं. 1984 का 52) के अनुसार 21 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में बाद में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं :—

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. का. आ. 2841 दिनांक 12-10-1990; | 5. का. आ. 1411 दिनांक 19-04-1996; |
| 2. का. आ. 82 दिनांक 20-4-1993; | 6. का. आ. 268 दिनांक 28-1-1997; |
| 3. का. आ. 1165 दिनांक 4-4-1995; | 7. का. आ. 2082 दिनांक 15-10-1998; तथा |
| 4. का. आ. 3252 दिनांक 13-11-1995; | 8. का. आ. 33 (अ) दिनांक 12-1-2000 |

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2001

S. O. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act so as to include sub qualifications therein, namely :—

In the First Schedule to the said Act, under sub-headings "Degrees",—

- (1) against serial number 53 relating to the University of Agricultural Sciences, Dharwad, in column 3, after the date "16th April, 1990", the following shall be inserted, namely :—
"This qualification shall be a recognised veterinary qualification as aforesaid only when granted on or before the 18th November, 1996.";
- (2) after serial number 57 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

| | | |
|--|---|--|
| 58. Pondicherry University, Pondicherry. | Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry | B. V. Sc. & A. H. This qualification shall be a recognised veterinary qualification as aforesaid only when granted on or after the 25th November, 1999. |
| 59. University of Agricultural Sciences, Dharwad. | Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry | B. V. Sc. & A. H. This qualification shall be a recognised veterinary qualification as aforesaid only when granted on or after the 19th November, 1996." |

[F. No. 51-6/89-LDT (VC) Part]

SATYABIR S. DODD, Jt. Secy.

Note: The Indian Veterinary Council Act, 1984 was published in the Gazette of India vide Act (number 52 of 1984) dated 21st August, 1984 and the First Schedule to the said Act was subsequently amended vide number :—

- | | |
|------------------------------------|--|
| (i) S. O. 2841 dated 12-10-1990; | (v) S. O. 1411 dated 19-04-1996; |
| (ii) S. O. 823 dated 20-04-1993; | (vi) S. O. 268 dated 28-01-1997; |
| (iii) S. O. 1165 dated 04-04-1995; | (vii) S. O. 2082 dated 15-10-1998; and |
| (iv) S. O. 3252 dated 13-11-1995; | (viii) S. O. 33 (E) dated 12-01-2000. |